

## एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत स्कूलों के लिए प्रस्तावित कैलेंडर:-

गतिविधियां	माह/ दिन/ स्थान	आयोजक	सीख/परिणाम
छात्रों को सहभागी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भाषाओं में अक्षर, गीत, कहावत और 100 वाक्य आदि का अनावरण कराना	शैक्षणिक वर्ष/हर सप्ताह/ स्कूल परिसर	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह विद्यार्थियों की भाषाई क्षमता का विकास करेगा।</li> </ul>
सहभागी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भाषा में स्कूलों की पाठ्यक्रम पुस्तकों में कुछ पृष्ठों को सम्मिलित करना।	शैक्षणिक वर्ष	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (एस सी ई आर टी)	<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्यार्थी सहभागी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों की भाषा और विभिन्न तथ्यों को जान सकेंगे।</li> </ul>
सहभागी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की भाषा में छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता	शैक्षणिक वर्ष	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह छात्रों में बहु-भाषाई कौशल विकसित करेगा।</li> </ul>
स्कूलों में, जहां संभव है, सहभागी राज्य की भाषा सीखने के लिए वैकल्पिक कक्षाएं	शैक्षणिक वर्ष/हर सप्ताह/ स्कूल परिसर	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्यार्थी सहभागी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की भाषा सीख सकेंगे।</li> </ul>
सहभागी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा, संस्कृति तथा इतिहास पर नाटक	शैक्षणिक वर्ष/ स्कूल परिसर	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्यार्थी सहभागी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की संस्कृति को सीख सकेंगे।</li> </ul>
सहभागी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की भाषा में समान कहावतों की पहचान/अनुवाद और प्रसार करना।	शैक्षणिक वर्ष	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>छात्र सहभागी राज्य /केंद्र शासित प्रदेश की भाषा और संस्कृति को सीख सकेंगे।</li> </ul>
"थीम्ड डिस्प्ले बोर्ड / दीवार पत्रिका"(सहभागी राज्य के ऐतिहासिक स्मारक, भेषभूषा, पेंटिंग, हस्तशिल्प, वर्णमाला मूल वाक्य दर्शाये जा सकते हैं)	साल भर /स्कूल परिसर	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"> <li>चित्रमय वर्णन सहभागी राज्य एवं उनके क्षेत्रों के बारे में सीखने और समझने में मदद करेगा।</li> </ul>
सहभागी राज्य की भाषा में स्वच्छता / एकल उपयोग प्लास्टिक / पानी की बचत / राष्ट्रीय एकता आदि विषयों पर प्रतिज्ञा दिलाना	हर महीने कम से कम दो बार /सुबह की सभा के दौरान स्कूल परिसर में.	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"> <li>छात्रों को सहभागी राज्य की भाषा की जानकारी मिलेगी</li> <li>छात्र/ छात्राएं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक होंगे</li> </ul>
सहभागी राज्य से संबंधित समाचार पढ़ना एवं संभाषण	महीने में दो बार / सुबह की सभा में	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"> <li>छात्र/छात्राएं सहभागी राज्य के नवीनतम</li> </ul>

करना			<p>समाचार और महत्वपूर्ण दिन-प्रतिदिन की घटनाओं से परिचित होंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>छात्र/छात्राओं को सहभागी राज्य के बारे में विस्तार से पता चलेगा।</li> </ul>
सहभागी राज्य के विषय में "सवाल जवाब सत्र"	महीने में एक बार/सुबह की सभा में	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह छात्र/छात्राओं को सहभागी राज्य से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने में मदद करेगा।</li> </ul>
सहभागी राज्यों के "राज्य दिवस" का उत्सव	राज्य दिवस /स्कूल परिसर	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह सहभागी राज्यों के छात्र/छात्राओं के बीच एकता की भावना विकसित करेगा।</li> </ul>
सांस्कृतिक प्रतियोगिता (सहभागी राज्य के लोक गीत / नृत्य, कला और चित्रकला, संगीत कोई अन्य सांस्कृतिक गतिविधि)	जनवरी से मार्च /स्कूल परिसर या जिला मुख्यालय	स्कूल/जिला	<ul style="list-style-type: none"> <li>छात्रों को सहभागी राज्य की सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।</li> <li>यह अलग अलग समाज एवं समुदाय से परिचित कराएगा।</li> </ul>
"लिटरेरी फेस्टिवल" (सहभागी राज्य के विषय पर क्विज़ प्रतियोगिता, कविता, पाठ, निबंध लेखन, 100 वाक्य, भाषण, चर्चा, लोकप्रिय क्षेत्रीय लिपि का अनुवाद आदि)	अगस्त से अक्टूबर /स्कूल परिसर	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह छात्रों में भाषा-संबंधी और रचनात्मक क्षमताओं का विकास करेगा।</li> </ul>
"एक भारत श्रेष्ठ भारत उत्सव" (एकता की प्रतिज्ञा, संस्कृति, रीति-रिवाज, पोशाक, कृषि, जलवायु और स्थलाकृति, सहभागी राज्य के छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अनुभव साझा करना)	31 अक्टूबर(राष्ट्रीय एकता दिवस) / स्कूल परिसर	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह छात्रों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने समग्र अनुभव / सर्वश्रेष्ठ क्रियाकलाप को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।</li> </ul>

"राज्य-परियोजना नोटबुक" प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा सहभागी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के विषय में।	नवंबर से दिसंबर /कक्षा अध्यापक	स्कूल	<ul style="list-style-type: none"><li>यह छात्र/छात्राओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हुई गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करेगा।</li></ul>
"एक भारत श्रेष्ठ भारत" स्कूल रिपोर्ट	तिमाही एवं वार्षिक /स्कूल प्रशासन	स्कूल	